

दिसम्बर, _____ को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु अचल सम्पत्ति का विवरण
STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY FOR THE YEAR ENDING DECEMBER, _____

संस्थान का नाम/Name of the Institute
अधिकारी का पूरा नाम/Name of the Officer (in full)
वर्तमान पद /Present post held

: National Institute for Interdisciplinary Science & Technology, Thiruvananthapuram
: DR. JOSHY GEORGE
: SENIOR TECHNICAL OFFICER (3)

वर्तमान वेतन Present Pay : _____
सीएसआईआर में शामिल होने की तिथि Date of Joining CSIR: 23.10.1998

क्र मां क Sl. No.	सम्पत्ति का विवरण Description of Property	एकदम सही स्थान (जिले, मंडल, तालुक, और गांव का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थिति है और सम्पत्ति का विशिष्ट नंबर आदि) Precise location (Name of District, Division, Taluk and Village in which the property is situated and also its distinctive number etc.	भूमि का क्षेत्रफल (भूमि एवं इमारतें/भवन नों के मामले में) Area of land (in case of land and buildings)	भू सम्पत्ति के मामले में भूमि की स्वरूप Nature of land in case of landed property	संपत्ति में हिस्सेदारी का अंश Extent of interest	यदि सम्पत्ति अपने स्वयं के नाम पर नहीं है तो बताएं कि किसके नाम से है तथा उससे सरकारी कर्मचारी का क्या सम्बन्ध है ? If not in own name, state in whose name held and his/her relationship, if any to the Government servant	अर्जन की तारीख Date of acquisitio n	(I) संपत्ति कैसे अर्जित की गयी ? (क्या क्रय पट्टे पर ली गयी, बंधक, उत्तराधिकार, उपहार अथवा अन्यथा ली गयी) ! (00) जिनसे सम्पत्ति अर्जित की गयी, उन व्यक्तियों के नाम तथा पूर्ण पता और (000) संबंधित व्यक्ति/ व्यक्तियों के साथ सरकारी कर्मचारी का सम्बन्ध, यदि कोई हो तो (कृपया नीचे दिए गए नोट 1 को देखें) (i) How acquired (whether by purchase, mortgage, lease, inheritance, gift or otherwise) (ii) Name with details of person/persons from whom acquired (address) and (iii) Connection of the Government Servant, if any, with the person/persons concerned (Please see Note 1 below)	Value of the Property सम्पत्ति का मूल्य		निर्धारित प्राधिकारी यदि कोई हो, की स्वीकृति का विवरण/निर्धा रित प्राधिकारी को दी गयी सूचना का विवरण Particulars of sanction of prescribed authority, if any/Intimati on to the Prescribed Authority	सम्पत्ति से कुल वार्षिक आय Total annual income from the property	Remarks टिप्पणी
									खरीद मूल्य (कृपया नीचे दिए गए नोट 2 को देखें) Purchase Value (see Note 2 below)	वर्तमान मूल्य Present Value			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	11	12	13
1	NA	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Date: 30.01.2023

हस्ताक्षर/Signature

Contd..2.